

सुर्खियां



SCB डेंटल कॉलेज और अस्पताल की वेब साइट का स्क्रीनशॉट

श्रीराम चन्द्र भंज डेंटल कॉलेज और अस्पताल, कटक को ऑनलाइन किया गया

एस सी बी (SCB) डेंटल कॉलेज और अस्पताल, कटक के लिए एक सुविधा संपन्न वेब आधारित अनुप्रयोग, निक,(NIC) ओडिशा द्वारा लॉन्च किया गया ।

यह सी एम एस(cms) आधारित वेबसाइट विभिन्न विभागों, नैदानिक सामग्री, शिक्षाविदों, छात्र गतिविधियों, संकाय, समितियों और अस्पताल सेवाओं जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाली बहुत जानकारीपूर्ण है। इस जी आई जी डब्लू (GIGW) अनुरूप वेब पेज को भिन्नक्षम लोग आसानी से व्यवहार कर सकते हैं। मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके साइट तक पहुंचने के लिए मोबाइल-फ्रंट तकनीक पर जोर दिया गया है। इसे सोशल मीडिया पर एकीकृत करके भी मजबूत किया गया है।

उद्घाटन वक्तव्य में एस. सी. बी डेंटल कॉलेज और अस्पताल के प्रिन्सिपल डॉ. जयंत कुमार दाश ने इसे कार्यक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ओडिशा के प्रयासों की सराहना की।

श्रीमती प्रतिभा सिंह, उप महानिदेशक और एस आई ओ ,(DDG & SIO) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र,(NIC) ओडिशा ने इस एप्लिकेशन में उपलब्ध सुविधाओं से सबको अवगत कराया और उम्मीद की कि, वेबसाइट छात्रों, संकायों, रिसर्च विद्वानों के साथ-साथ नागरिकों के लिए बहुत उपयोगी होगी।

संबलपुर ने "वन डिस्ट्रिक्ट वन नंबर" की अभिनव शुरुआत की

संबलपुर, ओडिशा के जिला प्रशासन ने शिकायत निवारण तंत्र: के लिए " एक जिला एक नंबर" नाम से एक नया और अनूठा दृष्टिकोण विकसित किया है।

यह सेवा मोबाइल एप, वेब एप्लिकेशन तथा टेलीफोन प्रणाली पर उपलब्ध है। जनता अपनी शिकायतों को दर्ज करने के लिए स्मार्ट फोन या



- One number for all Grievances
- Web Portal and App based monitoring
- 10am - 5:30pm on all working days
- Free SMS service to caller's mobile

'वन डिस्ट्रिक्ट वन नंबर' का स्क्रीनशॉट

वेब एप्लिकेशन या सीधे टोल फ्री नंबर 1800 345 6723 पर कॉल करके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

फिर शिकायत को संबंधित अधिकारी के पास भेज दिया जाता है और पूरा ऑडिट ट्रेल डेटाबेस में बनाए रखा जाता है। निष्पादन अधिकारी मोबाइल ऐप या एप्लिकेशन पोर्टल का उपयोग करके शिकायत का निपटान कर सकता है। प्रतिक्रिया स्वतः रूप से एसएमएस (SMS) के माध्यम से जनता के पास पहुँच जाता है।

शिकायत दर्ज करने के उपलब्ध तरीकों के अलावा, हाथ / पोस्ट द्वारा शिकायत प्राप्त

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

ओडिशा राज्य केंद्र

यूनिट - IV, सचिवालय मार्ग,

भुवनेश्वर - 751001

दूरभाष: +91 - 674 - 25408438

www.nic.in www.gov.in


ई-मेल: sio-ori@nic.in

"There are basically two types of people. People who accomplish things and people who claim to have accomplished things. The first group is less crowded."

- Mark Twain

करने और कार्यवाई हेतु सिस्टम में डालने के लिए आगे कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा एनआईसी,(NIC) जिला एकक, संबलपुर के तकनीकी सहयोग से विकसित की गई इस प्रणाली से संबलपुर जिला के नागरिकों में एक नई उम्मीद का संचार हुआ है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ओडिशा ने राष्ट्र के स्वच्छता अभियान का संकल्प लिया ।



एनआईसी, ओडिशा के कर्मचारीओं को शपथ लेते हुए..

2 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाते हुए, एन आई सी (NIC), ओडिशा ने स्वच्छता, कार्यालय और घर में प्लास्टिक का वर्जन तथा सोमवार को खादी वस्त्र पहनने के लिए कार्यालय में एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया । श्रीमती प्रतिभा सिंह, डीडीजी व एसआईओ (DDG & SIO) ओडिशा ने ओडिशा के सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के साथ - साथ व्यक्तिगत जीवन में स्वच्छता का महत्व, खादी पोशाक का उपयोग और एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के वर्जन पर जोर दिया। एनआईसी जिला एकक, के अधिकारियों ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाग लिया।



... ओह पापा ... मैं बहुत खुश हूँ कि आप अपना लैपटॉप और फोन छोड़ कर मेरे साथ खेलने आए ... आपके साथ खेलना 'स्नेक' से कहीं बेहतर है ...

